



20 मार्च 2023

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





प्रमुख खबरें

- वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, फरवरी में भारत का निर्यात लगातार तीसरे महीने 8.8 प्रतिशत घटकर 33.88 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले साल इसी महीने में 37.15 अरब डॉलर का था।
- थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति जनवरी 2023 में 4.73 प्रतिशत से गिरकर फरवरी 2023 में 3.85 प्रतिशत हो गई: वाणिज्य मंत्रालय।
- एफसीआई ने अनाज और गेहूँ के आटे (आटा) की खुदरा कीमतों को कम करने के लिए ई-नीलामी के छोटे दौर में आटा मिलों जैसे थोक उपभोक्ताओं को 4.91 लाख टन गेहूँ बेचा है।
- कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2022-23 सीजन के लिए कपास उत्पादन के अपने अनुमान को 8.50 लाख गांठ घटाकर 321.50 गांठ (170 किलोग्राम) से 313.00 लाख गांठ कर दिया है।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया के सबसे बड़े एल्युमीनियम उत्पादक चीन में प्राथमिक एल्युमीनियम का उत्पादन जनवरी-फरवरी में 6.33 मिलियन टन से बढ़कर 6.74 मिलियन टन हो गया।
- इस वर्ष फरवरी में भारत में कच्चे तेल के कुल आयात में रूस की हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी थी। इससे रूस लगातार चौथे महीने भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी।
- फरवरी में पर्थ मिंट से सोने के सिक्कों और बार की बिक्री 52,241 औंस हुई है जो पिछले महीने के मुकाबले 18.9% और पिछले साल की फरवरी से 28.1% कम है।
- फरवरी में मिंट के चांदी के सिक्कों और बार की बिक्री जनवरी से 20.4% की वृद्धि के साथ 1,484,936 औंस तक पहुंच गई, लेकिन फरवरी 2022 से 9% कम है।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	10.03.23	16.03.23	बदलाव (%)
जीरा	30935.00	32140.00	3.90%
कॉटनऑयलसीडकेक	2549.00	2625.00	2.98%
बाजरा	2193.00	2251.00	2.64%
गुड़	1201.50	1225.00	1.96%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	10.03.23	16.03.23	बदलाव (%)
ग्वारगम	12020.00	11405.00	-5.12%
जौ	2423.50	2316.00	-4.44%
ग्वारसीड	5734.00	5491.00	-4.24%
कॉफी	20670.00	19890.00	-3.77%
हल्दी	6914.00	6734.00	-2.60%

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	10.03.23	16.03.23	बदलाव (%)
चांदी	62890.00	69204.00	10.04%
नेचुरल गैस	202.40	221.10	9.24%
सोना	56150.00	58006.00	3.31%

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	10.03.23	16.03.23	बदलाव (%)
कच्चा तेल	6299	5695	-9.59%
मेंथा ऑयल	1037.2	1004.5	-3.15%
जिंक	260.1	255.4	-1.81%
कॉटन	61900	61400	-0.81%
निकल	2018.5	2002.5	-0.79%

साप्ताहिक समीक्षा

सिलिकॉन वैली बैंक संकट के बाद सीआरबी इंडेक्स में स्पष्ट बिकवाली देखी गई। यह 280 के स्तर से नीचे टूट गया। आर्थिक प्रदर्शन से जुड़ी कमोडिटीज जैसे औद्योगिक धातुओं और ऊर्जा की कीमतों में तेजी से प्रतिक्रिया हुई, विशेष रूप से कच्चे तेल में। संदेह के लाभ के कारण सर्राफा की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई। सोने की कीमतें छह सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ ही 1,930 डॉलर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। क्योंकि कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली बैंक के साथ शुरू हुआ अमेरिकी बैंकिंग संकट प्रमुख यूरोपीय निवेश बैंकर क्रेडिट सुइस के संकट के साथ ही वैश्विक हो गया। 22 मार्च को केवल 25 बेसिस प्वाइंट या अपरिवर्तित ब्याज दर की उम्मीद पर डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी गई। चीन के आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद पर सभी अनिश्चितताओं के बावजूद बेस मेटल की कीमतों में सीमित गिरावट देखी गई। निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने इस साल की शुरुआत में चीन के सबसे सख्त कोविड प्रतिबंधों में ढील देने के बाद रुझानों में सुधार का हवाला देते हुए चीन की वार्षिक आर्थिक वृद्धि के लिए अपने आउटलुक को 5.5% से 6% तक बढ़ा दिया। ऊर्जा में, कच्चे तेल की कीमतों में अधिक गिरावट हुई। डब्ल्यूटीआई और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में पिछले सप्ताह लगभग 11% की गिरावट हुई और दिसंबर 2021 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर लुढ़क गई। पिछले सप्ताह तीन अमेरिकी बैंकों के पतन के साथ, बाजारों ने व्यापक अर्थव्यवस्था में इस संकट के बढ़ने की आशंका जताई और इस बात की चिंता बढ़ा दी कि एक संभावित मंदी इस वर्ष तेल की मांग को गंभीर रूप से कम कर देगी। आंकड़ों के अनुसार 10 मार्च को समाप्त सप्ताह में अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में अनुमान से अधिक बढ़ोतरी हुई है, जिसने धीमी मांग को लेकर चिंताओं को बढ़ा दिया। अमेरिकी भंडार अब पिछले 12 हफ्तों में से 11 हफ्तों में बढ़ गए हैं जिससे दुनिया में कच्चे तेल के सबसे बड़े उपभोक्ता में संभावित आपूर्ति की भरमार पर चिंता भी बढ़ गई है। नेचुरल गैस की कीमतें 218-219 के सपोर्ट को बरकरार नहीं रख सकी और मामूली गिरावट देखी गई। असामान्य रूप से कम टंड ने इस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में हीटिंग की मांग को काफी कम कर दिया है, जिससे भंडारण में शुरू के अनुमान तुलना में अधिक गैस बची है।

कृषि कमोडिटीज को भी झटका लगा। कैस्टर सीड की कीमतें ने लंबे समय तक स्थिर रहने के बाद सपोर्ट स्तर से नीचे टूट गई। तीन सप्ताह के उछाल के बाद कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतों में भी कॉटन वायदा के साथ गिरावट हुई। कम अंतरराष्ट्रीय मांग के कारण निर्यात में काफी गिरावट आई है, क्योंकि इस स्तर पर भारतीय कपास की कीमतें महंगी दिख रही हैं। अक्टूबर 2022 से फरवरी 2023 तक, हमारा कपास निर्यात केवल लगभग 8 लाख गांठ था, जो हाल के वर्षों में सबसे कम है। कच्चे तेल में गिरावट के कारण ग्वार कार्टेंटर पर अधिक दबाव बना और इसमें लगातार चार सप्ताह की गिरावट देखी गई। जीरा को छोड़कर कमजोर निर्यात मांग के बीच अच्छी उपलब्धता के कारण पूरे सप्ताह मसालों की कीमतों पर मंदियों का दबाव रहा। मेंथा ऑयल की कीमतों में तीन सप्ताह की तेज गिरावट के बाद गिरावट में ठहराव देखा गया। यूपी में बुवाई शुरू हो गई है और मौसम की प्रतिकूल स्थिति के कारण पिछले साल की तुलना में बुवाई क्षेत्र कम है। आवक की ऑफ सीजन अवधि के कारण आपूर्ति कम हो गई है।



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	10.03.23	16.03.23	(%)
जौ	जयपुर	2,404.00	2,300.00	-4.33%
चना	दिल्ली	5,299.00	5,243.30	-1.05%
धनिया	कोटा	7,240.20	7,171.40	-0.95%
कूड पॉम ऑयल	कांडला	884.30	864.50	-2.24%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,191.95	1,217.75	2.16%
ग्वारसीड	जोधपुर	5,742.00	5,596.15	-2.54%
ग्वारगम	जोधपुर	12,051.10	11,681.65	-3.07%
जीरा	ऊंझा	30,674.90	31,246.85	1.86%
सरसों	जयपुर	5,591.90	5,600.45	0.15%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1,075.00	1,041.35	-3.13%
सोयाबीन	इंदौर	1,075.00	1,041.35	-3.13%
हल्दी	निजामाबाद	6,984.75	6,786.55	-2.84%
गेहूं	दिल्ली	2,412.50	2,457.30	1.86%
काँटन	कड़ी	29,759.55	29,162.00	-2.01%
काँटनऑयलसीडकेक	अकोला	2,632.95	2,649.50	0.63%

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	10.03.23	16.03.23	बदलाव (%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2313.00	2267.50	-1.97%
तांबा	LME	नकद	8867.00	8518.00	-3.94%
लेड	LME	नकद	2077.00	2066.50	-0.51%
निकल	LME	नकद	22684.00	23236.00	2.43%
जिंक	LME	नकद	2937.00	2857.50	-2.71%
सोना	COMEX	अप्रैल	1867.20	1923.00	2.99%
चांदी	COMEX	मई	20.51	21.69	5.75%
लाइट कूड	NYMEX	अप्रैल	76.68	68.35	-10.86%
नेचुरल गैस	NYMEX	अप्रैल	2.43	2.51	3.29%

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	10.03.23	16.03.23	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	मई	15.13	14.91	-1.45%
सोया तेल	CBOT	मई	56.10	57.73	2.91%
काँटन	ICE	जून	78.18	79.16	1.25%
सीपीओ	BMD	मई	4,093.00	3,933.00	-3.91%

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	09.03.23 क्वांटिटी	16.03.23 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	20	20	0
कैस्टर सीड	मी.टन	0	0	0
चना	मी.टन	8611	6256	-2355
धनिया	मी.टन	0	169	169
काँटनऑयलसीडकेक	मी.टन	7457	7819	362
ग्वारगम	मी.टन	15083	15004	-79
ग्वारसीड	मी.टन	23392	23822	430
जीरा	मी.टन	1474	2082	608
मक्का	मी.टन	0	0	0
स्टील लॉन	मी.टन	0	1029	1029
हल्दी	मी.टन	0	0	0

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	09.03.23 क्वांटिटी	16.03.23 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	1451	1233	-218
तांबा	मी.टन	693628	439883	-253745
सोना	किग्रा	318	318	0
सोना मिनी	किग्रा	13448	13408	-40
सोना गिनी	किग्रा	52300	62300	10000
लेड	किग्रा	342	144	-199
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	110574	96674	-13900
चांदी एम	किग्रा	40910	40910	0
जिंक	मी.टन	1972	40783	38810

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 09.03.23	स्टॉक की स्थिति 16.03.23	अंतर
एल्युमीनियम	554300	532425	-21875.00
तांबा	73350	73400	50.00
निकल	43722	43956	234.00
लेड	24775	25275	500.00
जिंक	39075	37775	-1300.00



ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कॉन्ट्रैक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	अप्रैल	32140.00	14.03.23	तेजी	32000.00	31200.00	-	31000.00
NCDEX	हल्दी	अप्रैल	6734.00	25.01.23	मंदी	7744.00	-	7040.00	7100.00
NCDEX	ग्वारसीड	अप्रैल	5491.00	07.02.23	मंदी	6000.00	-	5770.00	5800.00
NCDEX	कैस्टरसीड	अप्रैल	6294.00	12.12.22	मंदी	7500.00	-	6460.00	6500.00
NCDEX	स्टील लांग	अप्रैल	49400.00	30.01.23	मंदी	50000.00	-	49950.00	50000.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	अप्रैल	2625.00	14.03.23	तेजी	2560.00	2480.00	-	2450.00
MCX	मेंथा ऑयल	मार्च	1004.50	14.03.23	मंदी	1015.00	-	1045.00	1050.00
MCX	बुलडेक्स	मार्च	15652.00	13.03.23	तेजी	15500.00	15450.00	-	15400.00
MCX	चांदी	मई	66531.00	13.03.23	तेजी	64000.00	64200.00	-	64000.00
MCX	सोना	अप्रैल	58006.00	13.03.23	तेजी	57000.00	57060.00	-	57000.00
MCX	मेटलडेक्स	मार्च	17483.00	23.06.22	साइडवेज	17500.00	17000.00	18000.00	-
MCX	तांबा	मार्च	751.30	15.02.23	मंदी	770.00	-	777.00	780.00
MCX	लेड	मार्च	181.50	15.02.23	मंदी	184.00	-	189.00	190.00
MCX	जिंक	मार्च	255.40	15.02.23	मंदी	275.00	-	274.00	275.00
MCX	एल्युमिनियम	मार्च	203.60	15.02.23	मंदी	212.00	-	211.00	212.00
MCX	कच्चा तेल	अप्रैल	5748.00	30.01.23	मंदी	6400.00	-	6350.00	6400.00
MCX	नेचुरल गैस	मार्च	210.30	06.03.23	मंदी	230.00	-	246.00	250.00

*16/03/2023 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पड़बूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक को रखना को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना को ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

तांबा (मार्च) एमसीएक्स



तांबा (मार्च) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 788.30

निचला स्तर: 738.30

एमसीएक्स में तांबा (मार्च) कॉन्ट्रैक्ट 16 मार्च 2023 को 751.30 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 760.45 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 47.25 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

775.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 738.00 ₹ के टारगेट के लिए 762.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

हल्दी (अप्रैल) एनसीडीईएक्स



हल्दी (अप्रैल) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 8730.00

निचला स्तर: 6670.00

एनसीडीईएक्स में हल्दी (अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 16 मार्च 2023 को 6734.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6946.12 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 32.610 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

6970.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 6450.00 ₹ के टारगेट के लिए 6850.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

कच्चा तेल (अप्रैल) एमसीएक्स



कच्चा तेल (अप्रैल) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 6720.00

निचला स्तर: 5506.00

एमसीएक्स में कच्चा तेल (अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 16 मार्च 2023 को 5748.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6170.18 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 31.156 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

6100.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 5200.00 ₹ के टारगेट के लिए 5850.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

मोलभाव की खरीददारी के कारण हल्दी वायदा (अप्रैल) की कीमतों में कुछ तेजी की उम्मीद है। कीमतों में तेज गिरावट के बाद मसाला मिलें खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रही हैं। आवक की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिससे स्टॉकिस्ट मौजूदा स्तर पर हल्दी की खरीदारी कर रहे हैं। निजामाबाद, सांगली, सेलम, इरोड जैसे प्रमुख बाजारों में कटाई की गतिविधियों में प्रगति के साथ आवक में तेजी आई है। निजामाबाद के बाजार में प्रतिदिन लगभग 22000-26000 बैग की आवक हो रही है। लेकिन मार्च 23 में प्रमुख मंडियों में कुल आवक लगभग वर्ष-दर-वर्ष 57% कम रही है। पिछले वर्ष के 77 हजार टन की तुलना में 1-10 मार्च के दौरान लगभग 33 हजार टन की आवक हुई। कमजोर उत्पादन संभावनाओं से बाजार के सेंटीमेंट पर असर पड़ेगा। हल्दी की कीमतों को 6500 के पास सपोर्ट मिलने की उम्मीद है और निकट अवधि में 7300 की ओर बढ़ने की उम्मीद है।

निर्यात मांग में सुधार के कारण जीरा (अप्रैल) वायदा की कीमतों के तेजी के रुझान के साथ मिलाजुला कारोबार करने की संभावना है। आगामी रमजान सीजन को देखते हुए घरेलू मांग में भी तेजी आने की संभावना है। लेकिन नई आवक बढ़ने से बहुत सीमित रहने की संभावना है। गुजरात के उंझा बाजार में नयी आवक बढ़ी है और राजस्थान में भी बढ़ने की संभावना है। प्रतिदिन करीब 60000-65000 बैग की आवक हो रही है। राजस्थान में उत्पादकता अच्छी रही है जिससे राजस्थान में उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस स्टेकहोल्डर के अनुसार वर्ष 2023 में कुल उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष 28% बढ़कर 384 हजार टन होने का अनुमान है। जीरा की कीमतों के 29000-34000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

राजस्थान में आपूर्ति में सुधार के कारण धनिया वायदा (अप्रैल) की कीमतों के नरमी के रुझान के साथ कारोबार करने की संभावना है। धनिया का कुल उत्पादन 18%-20% अधिक होने का अनुमान है जिससे मार्च-अप्रैल में आवक में तेज वृद्धि हो सकती है। मांग में कमी आई है क्योंकि प्रमुख खरीदार और मसाला मिलें प्रमुख मंडियों में नई आवक की बढ़ती आपूर्ति की संभावना से थोक खरीद से परहेज कर रही हैं। लेकिन फसल के लिए मौसम का जोखिम है क्योंकि राजस्थान में मार्च में सामान्य से अधिक तापमान से फसल जल्दी पक जाएगी, जिससे उत्पादकता और कटाई गतिविधियां प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। धनिया की कीमतों के 6600-7400 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

अन्य कमोडिटीज

घरेलू बाजार में सीमित आपूर्ति के कारण कॉटन/कपास कीमतों के तेजी के रुझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद में किसान और स्टॉकिस्ट अपनी फसल रोके हुए हैं। पिछले सीजन की 232 लाख गांठों की तुलना में वर्ष 2022-23 में अक्टूबर 22-फरवरी 23 की समयावधि के दौरान अब तक लगभग 145 लाख गांठों की आवक हो चुकी है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2022-23 सीजन के लिए कपास उत्पादन के अपने अनुमान को 8.50 लाख गांठ घटाकर 321.50 गांठ (170 किलोग्राम) से 313.00 लाख गांठ कर दिया है। लेकिन कमजोर निर्यात संभावनाओं के कारण कपास में बहुत सीमित रहने की संभावना है। भारतीय कपास की उच्च कीमतों के परिणामस्वरूप सुस्त अंतरराष्ट्रीय मांग के कारण इस वर्ष कपास का निर्यात पिछले साल के 45 लाख गांठ की तुलना में केवल 30 लाख गांठ हो सकता है। एनसीडीईएक्स पर कपास (अप्रैल) की कीमतों के 1520-1600 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतें 60500-65000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर घटती आपूर्ति के कारण कॉटनऑयलसीडकेके (अप्रैल) वायदा की कीमतों में तेजी की संभावना है। कपास की आवक में कमी के कारण आपूर्ति अभी भी कम है। कपास की सीमित निर्यात मांग के कारण वर्ष 2022-23 में कपास के बीज के उत्पादन पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है। भारत के उत्तरी भाग में गर्म हवाओं के कारण हरे चारे की उपलब्धता बुरी तरह प्रभावित हुई है जिसके कारण पशु आहार उद्योग में मांग में वृद्धि हुई है। कॉटनऑयलसीडकेके की कीमतें 2400-2800 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

स्थानीय बाजार में सुस्त मांग के कारण ग्वारसीड (अप्रैल) वायदा की कीमतें नरमी के रुझान के साथ कारोबार कर सकती हैं। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण मिलों की ओर से ग्वारसीड की मांग में कमी आई है जिससे ग्वारगम की निर्यात संभावनाएं बाधित हुई हैं। कीमतों में अधिक गिरावट की आशंका से आवक बढ़ने की उम्मीद है। ग्वारसीड की कीमतें निकट भविष्य में 5300-6000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं, जबकि ग्वारगम की कीमतों को 10500-13000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

आगामी सीजन में कमजोर उत्पादन अनुमान के कारण मेंथा ऑयल वायदा (मार्च) की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। भारत के उत्तरी भाग में सामान्य से अधिक तापमान से बुवाई गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। आवक की ऑफ सीजन अवधि के कारण आपूर्ति कम हो गई है। कीमतें 1000 के सपोर्ट के साथ ऊपर की ओर रिकवरी कर सकती हैं और निकट अवधि में 1050 के स्तर पर रेजिस्टेंस रह सकता है।

बाजार में पर्याप्त आपूर्ति के कारण अरंडी वायदा (अप्रैल) की कीमतों के नरमी के रुझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। दैनिक आवक में वृद्धि हुई है, जबकि अरंडी के तेल के सुस्त निर्यात के कारण पेराई की मांग अभी भी कम है। अरंडी तेल कारोबारियों के लिए सुस्त निर्यात मांग अभी भी एक बड़ी चिंता है क्योंकि निर्यात में गिरावट के साथ घरेलू भंडार में बढ़ोतरी हो रही है। अरंडी के तेल का निर्यात जनवरी-दिसंबर 22 के दौरान साल-दर-साल 16% घटकर 581.75 हजार टन रह गया है। आने वाले समय में अरंडी की कीमतें 6100-6600 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

सर्साफा

कमजोर डॉलर से सोने की कीमतों में उछाल आया और नवंबर के मध्य के बाद से सबसे अधिक साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने में कामयाब हुआ, क्योंकि वैश्विक स्तर पर बैंकिंग संकट के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए सोने की ओर आकर्षित हुए। अमेरिका स्थित सिलिकॉन वैली बैंक के पतन के बाद सुरक्षित निवेश मांग के कारण कीमतों में 5% से अधिक या लगभग 100 डॉलर की वृद्धि हुई। बड़े अमेरिकी बैंकों ने व्यापक बैंकिंग संकट में फंसे ऋणदाता को बचाने के लिए गुरुवार को फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में 30 बिलियन डॉलर जमा किए। स्विस ऋणदाता क्रेडिट सुइस ने कहा कि यह लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए स्विस नेशनल बैंक से 54 अरब डॉलर तक उधार लेगा। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने गुरुवार को ब्याज दरों में 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की, क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति को लेकर चिंता ने बैंकिंग संकट की आशंकाओं को दूर कर दिया। अमेरिकी केंद्रीय बैंकों को उनकी मार्च की नीति बैठक में 25 बेसिस प्वाइंट की दर वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति से लड़ने के अभियान पर जोर देते हुए देखा गया है। बेरोजगारी लाभ के लिए नए दावे दाखिल करने वाले अमेरिकियों की संख्या पिछले सप्ताह अपेक्षा से अधिक कम हो गई, जो निरंतर श्रम बाजार की कमजोरी की ओर इशारा करती है। कॉमेक्स पर सोने की कीमतें 1940 डॉलर के रेजिस्टेंस के पास कारोबार कर रही हैं, और जब तक कीमतें इसके नीचे बनी रहती हैं, कीमतों में गिरावट की संभावना है। यदि इस स्तर को पार करती हैं और इस स्तर से ऊपर बनी रहती हैं तो 1980/2020 डॉलर की ओर एक तेज बढ़त देखी जा सकती है। सोने की कीमतों को अल्पकालिक सपोर्ट 1880 डॉलर के पास बना हुआ है। कॉमेक्स पर चांदी की कीमतें 20.00-24.00 डॉलर के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। इस सप्ताह में सोने की कीमतों में तेजी जारी रह सकती है जहां इसे 56000-60000 के पास सपोर्ट मिल सकता है। चांदी की कीमतें 64000-70000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

तेल की कीमतों में लगभग 10% की गिरावट हुई है और बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास के संकट से मंदी और मांग में कटौती की चिंताओं के कारण एक वर्ष से अधिक समय में सबसे निचले स्तर पर लुढ़क है। स्विस नियामकों द्वारा क्रेडिट सुइस को एक लिक्विडिटी उपलब्ध कराने के बाद कच्चे तेल की कीमतों के साथ बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स ने अपने कुछ नुकसानों की भरपाई की, जिसके शेरों में पहले 30% तक की गिरावट देखी गई थी। कच्चे तेल के दोनों बेंचमार्क दिसंबर 2021 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए और लगातार तीन दिनों तक गिरे रहे। बढ़ती ब्याज दरों और आर्थिक अनिश्चितता के कारण हेज फंड लिक्विडेट कर रहे हैं। शुक्रवार को बंद होने के बाद से ब्रेट कच्चा तेल 10% से अधिक गिर गया है, जबकि अमेरिकी कच्चा तेल 14% से अधिक नीचे है। मुद्राओं की एक समूह के मुकाबले अमेरिकी डॉलर भी मजबूत हुआ, जिससे उन मुद्राओं के धारकों के लिए कच्चा तेल खरीदना अधिक महंगा हो गया। इस बीच, आंकड़े बताते हैं कि कोविड-19 रोकथाम के सख्त उपायों की समाप्ति के बाद 2023 के पहले दो महीनों में चीन की आर्थिक गतिविधि में तेजी आई। इस सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में मंदी के रुझान के साथ व्यापार करने की संभावना है और कीमतों में वृद्धि पर बिकवाली करना अच्छी रणनीति होगी। कच्चे तेल की कीमतें 5200-6000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। नेचुरल गैस की कीमतों में इस उम्मीद से उछाल आया कि आने वाले कुछ हफ्तों में सर्दियों के अंत में होने वाली ठंड के दौर के कारण आपूर्ति में कमी आ सकती है। ईआईए ने अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में कहा कि पिछले सप्ताह गैस के भंडार में सामान्य से कम 58 बिलियन क्यूबिक फीट की कमी आई और जो आपूर्ति सामान्य से 22% अधिक थी, वह अब सामान्य से 24% अधिक है। इस सप्ताह गैस की कीमतें 170-230 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।



बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें तेजी के रुझान के साथ एक दायरे में कारोबार कर सकती हैं क्योंकि बैंकिंग संकट को टालने के लिए बेलआउट उपायों से निवेशकों को राहत मिल सकती है, जबकि चीनी मांग में सुधार की उम्मीद से भी सेंटिमेंट को बढ़ावा मिल सकता है। निवेशकों ने बैंकों के एक बड़े समूह द्वारा अमेरिकी ऋणदाता फर्स्ट रिपब्लिक बैंक और स्विस नेशनल बैंक में नकदी डालने की खबर का स्वागत किया, जो संकटग्रस्त स्विस ऋणदाता क्रेडिट सुइस को पुनर्जीवन प्रदान कर रहा है। 2023 के पहले दो महीनों में चीन में आर्थिक गतिविधि में तेजी आई है क्योंकि कमजोर वैश्विक मांग और संपत्ति क्षेत्र में मंदी की चुनौतियों के बावजूद खपत और बुनियादी ढांचे के निवेश ने महामारी की बाधाओं से उबरने में मदद की है। फरवरी में चीन के घरों की कीमतों में लगातार दूसरे महीने तेजी दर्ज की गई है, लेकिन कीमतें अभी तक अपने सभी नुकसानों की भरपाई नहीं कर पाई हैं और बिना बिकं घरों का एक बड़ा स्टॉक बना हुआ है। तांबे की कीमतें 735-775 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। शीर्ष उपभोक्ता चीन में मांग बढ़ने के संकेत के कारण यांगशान में तांबे के प्रीमियम के साथ कीमतों का मदद मिला है, जो चीन में आयातित तांबे की मांग को दर्शाता है। यह प्रीमियम पिछले सप्ताह बढ़कर 35 डॉलर प्रति टन हो गया, जो 9 जनवरी के बाद का उच्चतम है। जिंक की कीमतें 245-275 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। लेड की कीमतें 178-187 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एल्युमीनियम की कीमतें 198-215 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 के पहले दो महीनों में चीन का एल्युमीनियम उत्पादन 7.5% बढ़ा है क्योंकि सख्त कोविड-19 नियंत्रणों की समाप्ति के बाद आर्थिक आउटलुक में सुधार हुआ और मांग की उम्मीदें बढ़ीं। लेकिन यूरोप और अमेरिका में कमजोर खपत के कारण चीन के एल्युमीनियम उत्पादों के निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे प्राथमिक एल्युमीनियम की मांग कम होगी। एनसीडीईएक्स पर स्टील लॉग (अप्रैल) की कीमतें नरमी के रुझान के साथ 48500-53000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

अमेरिकी बैंकों का संकट..... सदमे में दुनिया

कई अमेरिकी बैंकों के दिवालिया होने की खबरों ने दुनिया भर के बाजारों को सदमे में डाल दिया है और यह आशंका बढ़ गई है कि अमेरिकी वित्तीय प्रणाली में 'धीमी गति से चलने वाला संकट' शुरू हो सकता है। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक का पतन वास्तविक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा या नहीं, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन नई ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदों और यहां तक कि राजनीतिक बयानबाजी का बाजारों पर प्रभाव पहले से ही स्पष्ट है। पिछले सप्ताह के अंत में अमेरिका में शुरू हुई बैंकिंग उथल-पुथल यूरोप तक फैल गई है। सिलिकॉन वैली बैंक के पतन के बाद क्रेडिट सुइस की विफलता ने विश्व स्तर पर वित्तीय अस्थिरता के जोखिम को बढ़ा दिया है।

यह पतन 2008 के बाद से किसी अमेरिकी बैंक की सबसे बड़ी विफलता है। लेकिन 2008 का संकट संपत्ति (जैसे मॉर्टगेज प्रतिभूतियों) के कारण हुआ था, जिसका मूल्य निर्धारण करना मुश्किल था, जिससे बैंकों के लिए यह निर्धारित करना कठिन हो गया था कि वे कितने मूल्य के थे। लेकिन इस बार, बैंकों (अमेरिकी ट्रेजरी और बॉन्ड) के लिए परेशानी पैदा करने वाली संपत्ति का मूल्य निर्धारण और बिक्री आसान है। यह सरकार द्वारा हस्तक्षेप को अधिक अधिक प्रभावी बनाता है। यद्यपि अमेरिकी सरकार ने यह कहकर आशंकाओं को शांत करने की कोशिश की है कि दो बैंकों में सभी जमाकर्ताओं को पैसे की गारंटी होगी, लेकिन बैंकों की विफलता ने वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण दरारें प्रकट की हैं जो वैश्विक संस्थानों को प्रभावित करना शुरू कर रही हैं। गोल्डमैन सैक्स ने छोटे बैंकों के दबाव के बीच अगले 12 महीनों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मंदी में प्रवेश करने की संभावना को बढ़ाकर 35% कर दिया।

कीमती धातुओं पर प्रभाव

सोने को वित्तीय संकट की आहट जल्दी मिलती है, जिसकी कीमतें तेजी से बढ़ी क्योंकि ऐसी संभावना है कि दो बड़े अमेरिकी क्षेत्रीय बैंकों के पतन के बाद फेडरल रिजर्व अपनी दरों में वृद्धि को रोक सकता है और निवेशक बैंकिंग संकट के बाद पैसा लगाने के लिए एक सुरक्षित संपत्ति की तलाश कर रहे हैं।

कम होती यील्ड, कमजोर डॉलर, और सुरक्षित संपत्ति की तलाश के कारण निकट अवधि में कीमती धातुओं में कुछ बढ़त जारी रह सकती है लेकिन यह बढ़त सोने तक ही सीमित रह सकती है और अधिक औद्योगिक खपत वाली चांदी आर्थिक विकास के पटरी से उतरने के कारण कम प्रदर्शन कर सकती हैं।


बाजार का 80% संभावना है कि फेडरल रिजर्व मार्च में ब्याज दरों में 50 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि करेगा और मई में फिर से आक्रामक कदम उठा सकता है। लेकिन नए बैंकिंग संकट से पता चलता है कि फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में आक्रामक वृद्धि के एक साल बाद वित्तीय बाजारों का स्वास्थ्य कितना अनिश्चित है।

बेस मेटल पर प्रभाव

जहां वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता से सोने की कीमतों को एक सुरक्षित निवेश के रूप में मदद मिल रही है, वहीं आर्थिक विकास में धीमेपन से औद्योगिक धातुओं की मांग में बाधा आ सकती है और बेस मेटल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। डॉलर के कमजोर होने से ही औद्योगिक धातुओं को कुछ राहत मिल सकती है लेकिन व्यापक आधार वाली आर्थिक धीमेपन का प्रभाव अधिक रह सकता है।

ऊर्जा पर प्रभाव

वैश्विक मंदी की बढ़ती चिंताओं के बीच इस साल अब तक तेल की कीमतें लुढ़क गई हैं। अब अमेरिकी बैंकों के पतन ने एक संभावित मंदी की आशंका जताई है जो इस साल तेल की मांग को गंभीर रूप से कम कर सकती है। कच्चे तेल के बाजार का ध्यान बैंकिंग क्षेत्र में किसी भी नयी घटना पर केंद्रित है, जिसमें अमेरिकी और यूरोपीय दोनों सरकारें प्रमुख उधारदाताओं के बीच स्थिरता पर निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए कोशिश रही हैं।



स्रोत: रॉयटर्स और एसएसपी रिस्क



एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का निम्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

डिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सल्यूशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोziशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ड्रॉकरेंज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।